

SC/ST छात्रों के फीस वापसी हेतु दिशा निर्देश

इग्नू मुख्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार जनवरी'2019 सत्र में BA, BCOM, BSC, BSW और BTS प्रोग्राम के रि-रजिस्ट्रेशन कराये हुए एससी/एसटी छात्रों की फीस वापस किया जाना है। छात्रों द्वारा ऑनलाइन रि-रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए जानकारी के अनुसार सूची में दर्शाये गए छात्र फीस वापसी के लिए पात्र हैं लेकिन इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय आपके द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेज के आधार पर ही किया जायेगा। वेबसाइट पर अपलोड किये गए फाइल में अगर किसी छात्र का नाम नहीं है और वह SC/ST समुदाय का है, एवं इग्नू मुख्यालय के पत्र संख्या 667 दिनांक 07/12/2018 के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों को पूर्ण करता हो तो वह भी नीचे बताये प्रोफॉर्मा को डाउनलोड कर फीस वापसी के लिये आवेदन कर सकता है।

वेबसाइट पर फीस भुगतान हेतु एक प्रोफॉर्मा संलग्न किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि प्रोफॉर्मा को भरकर नीचे बताये गए दस्तावेजों के साथ दिनांक 15.02.2019 तक इस कार्यालय को वापस करें।

- 1) स्व-अभिप्रमाणित जाति-प्रमाण पत्र। जाति-प्रमाण पत्र पर अंकित नाम आपके द्वारा नामांकन लिए गए नाम से मिलना चाहिए अन्यथा आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 2) स्व-अभिप्रमाणित इग्नू पहचान-पत्र (IGNOU ID Card) की छाया-प्रति।
- 3) कैंसिल चेक की एक मूल प्रति। अगर चेक नहीं हो तो बैंक अकाउंट पासबुक के पहले पेज की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति। बैंक अकाउंट की छायाप्रति में खाताधारक का नाम, आई.एफ.एस.सी कोड और अकाउंट नंबर अवश्य होना चाहिए। बैंक अकाउंट छात्र के नाम पर ही होना चाहिए। अगर किसी अन्य के नाम पर अकाउंट होगा तो किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जायेगा और इस सम्बन्ध में बाद में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 4) स्व-अभिप्रमाणित आधार कार्ड की प्रति।
- 5) छात्र द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेज की छायाप्रति स्व-अभिप्रमाणित होनी चाहिए। नामांकन के समय छात्र द्वारा जिस तरह से हस्ताक्षर किया गया है वैसा ही हस्ताक्षर सभी जगह होना चाहिए अन्यथा आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में बाद में कोई पत्राचार स्वीकृत किया जायेगा।
- 6) इस पत्र के साथ संलग्न किये गए प्रोफॉर्मा के सभी कॉलम भरे होने चाहिए। कोई भी कॉलम अपूर्ण रहने पर फॉर्म निरस्त कर दिया जायेगा। प्रोफॉर्मा पर छात्र का हस्ताक्षर होना भी जरूरी है।

7) कृपया फॉर्म को उसके सहायक दस्तावेजों के साथ इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी को निम्न पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करें अथवा कार्यालय में आकर जमा कर सकते हैं जो प्रत्येक स्थिति में 15 फरवरी 2019 तक इस कार्यालय को अवश्य ही प्राप्त हो जाना चाहिए ।

क्षेत्रीय निदेशक

इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी

गाँधी भवन, बी.एच यू परिसर

वाराणसी -221005

क्षेत्रीय निदेशक